



16-9-81

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1981/वैशाख 16, 1903

No. 10]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1981/VAISAKHA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 मई, 1981

आ० अ० 9(अ).—उत्तर प्रदेश राज्य में 25-अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री संजय गांधी की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (i) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र में यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 18 जून, 1981 (बुधवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/उ० प्र०-लो० सं० 5/80(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th May, 1981

O.N. 9(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by the reason of the death of Shri Sanjay Gandhi, a member elected to that House from 25-Amethi Parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh ;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (i) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 18th June, 1981 (Thursday) in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/UP-HP/5/80(1)]

आ० अ० 10(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०-लो० सं० 5/80(1), तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में 25-अमेठी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

- (क) नाम निर्देशन के लिए अन्तिम तारीख 13 मई, 1981 (बुधवार);
- (ख) नामनिर्देशनों की सूचीआ की तारीख 14 मई, 1981 (बुधवार);
- (ग) प्रत्यक्षितार्थ वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख 16 मई, 1981 (शनिवार);
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मनाया होगा, 14 जून, 1981 (रविवार);

(क) बहु नगरीय जमक पूर्व निर्वाचन 18 जून, 1981 (वृहस्पतिवार), समाप्त कर दिया जाएगा नियत करना है।

[सं 100/उ० प्र०-लो० सं०/5/80(2)]

O.N. 10(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 25-Amethi Parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh in pursuance of its Notification No. 100/UP-HP/5/80(1), dated the 6th May, 1981.

- (a) 13th May, 1981 (Wednesday) as the last date for making nominations ;
- (b) 14th May, 1981 (Thursday) as the date for the scrutiny of nomination ;
- (c) 16th May, 1981 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures ;
- (d) 14th June, 1981 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 18th June, 1981 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/UP-HP/5/80(2)]

आ० सं० 11(अ) —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना

सं० 100/उ० प्र०-लो० सं०/5/80(1), तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में 25-अमेठी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7.30 बजे पूर्वाह्न से 1.30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं 100/उ० प्र०-लो० सं०/5/80(3)]

आदेश से,

क० गणेशन, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 11(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 25-Amethi Parliamentary constituency to be held in pursuance of its Notification No. 100/UP-HP/5/80(1), dated the 6th May, 1981.

[No. 100/UP-HP/5/80(3)]

By Order,

K. GANESAN, Secy.,
Election Commission of India.